

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2025 — आषाढ़ 27, शक 1947

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 26, 1947)

क्रमांक-10731/वि.स./विधान/2025. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) जो गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता./—

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 20 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा
प्रारंभ. | 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> |
|---|----|---|

- | | | |
|-----------------------|----|---|
| अनुसूची का
संशोधन. | 2. | <p>छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 19 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ा जाये, अर्थात् :-</p> |
|-----------------------|----|---|

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	कृष्णा विकास यूनिवर्सिटी, रायपुर	जी.डी. आर. फाउंडेशन	छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसायटी, पंजीयन	वीर सावरकर नगर, नियर, नंदनवन, अटारी, रायपुर (छ.ग.)	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> अभियांत्रिकी/प्राद्योगिकी/वास्तु शिल्प/डिजाइन विज्ञान व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त आर्ट्स/ह्यूमानिटिज/सोशल साइंस फार्मेसी/फार्मास्यूटिकल विधि (लॉ)

			क्रमांक 2279 दिनांक 27.11.2008			<ul style="list-style-type: none"> एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया लाइब्रेरी एंड इनफार्मेशन साइंस फाइन आर्ट/परफार्मिंग आर्ट/विसुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा पुनर्वास विज्ञान <p>में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम</p>
--	--	--	--------------------------------------	--	--	---

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः प्रस्तावित विश्वविद्यालयों का लक्ष्य, अभिनव शिक्षा प्रदान करते हुए भारतीय एवं विदेशी विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगी वातावरण सृजित करना है जो विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ायेगा एवं राज्य के युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर प्रदान करेगा;

और यतः प्रस्तावित विश्वविद्यालय, स्थानीय व्यवसाय से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सहबद्ध राज्य के लोगों के साथ-साथ विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा तथा जिसके द्वारा विश्वविद्यालय, राज्य में रोजगार उत्पादक के रूप में साबित होगा, जो आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करते हुए, राज्य के आय में वृद्धि करने में मददगार होगा;

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) के प्रावधानों को संशोधित करते हुए, कृष्णा विकास यूनिवर्सिटी के रूप में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा करती है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,
दिनांक 12 जुलाई, 2025

विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13, सन् 2005)
की धारा 9 (1) के अंतर्गत अनुसूची का सुसंगत उद्घरण :-

अनुसूची [धारा 9 (1) के अन्तर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
1.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक स एण्ड टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे, ग्राम पंचायत गुल्लु, ग्राम गुल्लु, तहसील आरंग, जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों का प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मसी, कला एवं मानविकी, विधि शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	भगवान श्री बाला साई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक 2561 छ.ग. राज्य, दिनांक 08-01-2004	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील आरंग, जिला-रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफार्मेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्नालॉजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी. एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी. एफ.ए.आई. सोसायटी रायपुर,	छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002	ग्राम-चोरहा, आर.आई. सर्किल, अहिंवारा तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.
5.	आई.टी. एम.	आई.टी.एम. सोसायटी,	फर्म्स एवं सोसायटीज	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा	छत्तीसगढ़ राज्य	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर साईंस इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी

	विश्वविद्यालय	रायपुर	पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक -2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13.08.2003	तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661		<ul style="list-style-type: none"> • बायो-टेक्नालॉजी • बायो-इंफॉर्मेटिक्स • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • माइक्रोबायआलॉजी • नैनोटेक्नालॉजी • फार्मसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • व्यवसाय प्रबंधन • ह्यूमैनिटीज • विधि • शिक्षा विज्ञान • स्वास्थ्य विज्ञान • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाइनिंग • पत्रकारिता एवं जनसंचार • प्रबंधन प्रौद्योगिकी <p>विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.</p>
6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलदेव इंटरनेशनल एजुकेशन फाऊन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस-30655 सन् 1996, दिनांक 19/12/1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्द I जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • नैनो-टेक्नालॉजी • व्यवसाय प्रबंधन • विधि • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाइनिंग <p>विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और , अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम।</p>
7.	ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी	जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम- 1973	ओ.पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथर I,	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी संकाय • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय • विज्ञान संकाय

		सोसायटी	(क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-बी.एस. 2171, दिनांक 04/05/1998	तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़		<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा संकाय • शारीरिक शिक्षा संकाय
8.	आई.एस. बी.एम. यूनिवर्सिटी	अल्फा फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का सं. 29) के अधीन स्वीकृत सोसाइटी पंजीयन क्र. —एफ/18944/थाने, दिनांक 25-02-2010	ग्राम-छुरा तहसील-छुरा जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़ (अनुसूचित क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया • कला/मानविकी (ह्यूमेनिटीज)/ सामाजिक विज्ञान • शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण • विधि • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त • पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान • ललित कला/कला प्रदर्शन/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा • विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान • अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तु कला/डिजाइन • व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास • पैरामेडिकल/नर्सिंग • स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान • संस्कृत साऊंडिंग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम तथा एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय पाठ्यक्रम.
9.	एएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं.21) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्द I, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • पत्रकारिता • जन संचार • मीडिया • ललित कला • प्रदर्शन कला • दृश्य कला • अनुप्रयुक्त कला में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि

						एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम
10.	श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट	उप पंजीयक— सात, नई दिल्ली में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 29.03.2000	शदानी दरबार के पास, ग्राम—धनेली, पोस्ट ऑफिस—माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ● विज्ञान ● व्यापार प्रबंधन ● वाणिज्य ● इंजीनियरिंग ● कला ● होटल प्रबंधन ● फैशन डिजाईनिंग <p>में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम</p>
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	महर्षि शिक्षण संस्थान	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं.21) के अधीन पंजीकृत एवं रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, दिल्ली, प्रशासन दिल्ली द्वारा अनुमोदित सोसाइटी	ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला—बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम/योग, वैदिक साइंस, ज्योतिष, कीर्तन एवं अन्य दर्शन ● व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त ● ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला ● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/यात्रा एवं पर्यटन ● कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान ● अभियांत्रिकी/डिजाईन <p>में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम</p>
12.	के.के. मोदी यूनिवर्सिटी	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2652 दिनांक 22.07.2003	ग्राम—महमरा, जलबाधा रोड, तहसील एवं जिला—दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड —491001	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> ● अभियांत्रिकी/डिजाईन ● वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त ● विज्ञान ● होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा <p>में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान</p>

						स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.
13.	देव संस्कृति विश्वविद्या लय	वेद माता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम से उप पंजीयक हरिद्वार के अधीन पंजीकृत पंजीकरण क्रमांक बही 4 जिल्द-47 पृष्ठ 270-271 क्रमांक-84 दिनांक 14-11-1969	ग्राम-सांकरा कुम्हारी, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम/योग, वैदिक साइंस एवं अन्य दर्शन विधि आधारित पाठ्यक्रम व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वि वत्त ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला होटल प्रबंधन/अतिथि सत्काल/यात्रा एवं पर्यटन/जन संपर्क पाठ्यक्रम कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान सूचना तकनीकी पाठ्यक्रम अभियांत्रिकी/डिजाइन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम."
14.	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	श्री गंगाजली एजुकेशनल सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक डी.आर. /डी.-दुर्ग/आर. क्र. 2005, दिनांक 17.02.2009	ग्राम-जुनवानी, भिलाई, तहसील एवं जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी बॉयो-इंफॉर्मेटिक्स माइक्रोबॉयोलॉजी नैनोटेक्नोलॉजी फॉर्मैसी बीमा शारीरिक शिक्षा शिक्षा विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम.
15.	भारती विश्वविद्या लय	हॉलिस्टिक फाऊंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973)	ग्राम-चंदखुरी, पोस्ट- तहसील एवं जिला-दुर्ग,	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान संकाय विज्ञान संकाय

			के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 13053, दिनांक 25.08.2007	छत्तीसगढ़ पिन- 491001		<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण संकाय • इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/डिजाइन संकाय • स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संकाय • व्यापार प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त संकाय • पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय • विधि संकाय • पत्रकारिता/जनसंचार/मीडिया संकाय • होटल प्रबंधन में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम।
"16.	आंजनेय विश्वविद्यालय	एस.बी.ए. एजुकेशन सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 11944, दिनांक 20-07-2007	ग्राम-नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया • आर्ट्स/ह्यूमेनिटी/सोशल साइंस • एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग • विधि (लॉ) • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त • लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस • फाइन आर्ट/परफॉर्मिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा • विज्ञान/एप्लाइड साइंस • अभियान्त्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तु शिल्प (डिजाइन) • बैचलर ऑफ वोकेशनल/कौशल विकास (स्कील डेवलपमेन्ट) • पैरामेडिकल/नर्सिंग • हेल्थ एण्ड एप्लाइड साइंस

						<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्वास विज्ञान • संस्कृत साउन्डिंग डिग्रियों • शारीरिक शिक्षा <p>में प्रमाणपत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम"</p>
"17.	श्री दावड़ा विश्वविद्यालय	मानव रचना एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 2795, दिनांक 13-04-2009.	ग्राम-भेलवाडीह, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया • कला / मानविकी / समाज विज्ञान • शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण • विधि • व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त • ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, • होटल प्रबंधन / अतिथि सत्कार / पर्यटन / यात्रा • विज्ञान • व्यावसायिक शिक्षा <p>में प्रमाणपत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम."</p>
"18.	रूंगटा इंटरनेशनल स्कील्स विश्वविद्यालय	जी.डी.आर. एज्युकेशनल सोसायटी, जी.ई. रोड, गंजपारा	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 4521, दिनांक 26.07.2001	रूंगटा एज्युकेशनल कैंपस, कोहका रोड, कुरुद, भिलाई, तहसील एवं जिला-दुर्ग, पिन-492004, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> • पत्रकारिता / जन सम्प्रेषण / मीडिया • आर्ट्स / ह्यूमेनिटी / सोशल साइंस • एजुकेशन / टीचर्स ट्रेनिंग • विधि (लॉ) • व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त • लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस • फाइन आर्ट / परफॉर्मिंग आर्ट / विजुअल आर्ट / एप्लाइड आर्ट • होटल प्रबंधन / अतिथि सत्कार / पर्यटन / यात्रा • विज्ञान / एप्लाइड साइंस • अभियान्त्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तु शिल्प (डिजाइन) • व्यावसायिक शिक्षा

						<ul style="list-style-type: none"> फार्मसी में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, पी.एच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम।"
--	--	--	--	--	--	--

दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा